

प्रेस नोट दिनांक – 26.07.2021

इटावा पुलिस द्वारा धोखाधडी से एटीएम कार्ड बदलकर दो दर्जन से अधिक लोगो के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर अभियुक्त 26 एटीएम कार्ड, नगदी व अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी से एटीएम कार्ड बदलकर दो दर्जन से अधिक लोगो के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर अभियुक्त 26 एटीएम कार्ड, नगदी व अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2021 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर वादिया ममता देवी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी शान्ति कालोनी थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 25.07.2021 को जब वह विजन नगर चौराहा पर एटीएम से रुपए निकाले गयी थी , एटीएम पर अत्यधिक भीड-भाड होने का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा पर्स जिस पर अजय आभूषण केन्द्र लिखा था, चोरी कर लिया गया था जिसमें एटीएम, आधार कार्ड व 1500 रुपये नगद रखे थे । वादिया की तहरीर के आधार पर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 280/21 धारा 379 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त –

दिनांक 25/26 .07.2021 की रात्रि को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस को चैकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दी गयी कि लोगो के साथ धोखाधडी कर ठगी करने वाला अभियुक्त कही जाने की फिराक में संमृद्धि हॉस्पिटल के सामने हाइवे सर्विस रोड पर खडा है । मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंच कर पीछा कर घेराबंदी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस , 26 एटीएम कार्ड, एक छोटा लेडीज पर्स , 2500 रुपए नगद व 01 आधार कार्ड बरामद किया गया ।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बरामद एटीएम कार्डों के संबंध में बताया गया कि वह विभिन्न एटीएम पर जाकर लोगो के साथ धोखाधडी

से एटीएम बदल कर लोगो के खातों से पैसा निकाल लेता था एवं बरामद लेडीज पर्स के बारे में बताया कि यह पर्स दिनांक 25.07.2021 को विजय नगर चौराहा से एक महिला से चोरी किया था जिसमें 01 एटीएम, 01 आधार कार्ड व 1500 रुपए मिले थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद असलाहो के जरूरी प्रपत्र मांगने पर अभियुक्त जरूरी प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहा।

थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा महिला के साथ चोरी की घटना के संबंधित अभियोग में पर्स की बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 280/21 धारा 379 में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है एवं उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर मु0अ0स0 284/21 धारा 420 भादवि व मु0अ0स0 285/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय राठौर पुत्र मौहर सिंह निवासी साडूपुरा थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 280/21 धारा 379 ,411 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा
2. मु0अ0स0 284/21 धारा 420 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा
3. मु0अ0स0 285/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा

बरामदगी-

1. 05 एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक
2. 05 एटीएम कार्ड कैनरा बैंक
3. 05 एटीएम कार्ड पंजाब नेशनल बैंक
4. 01 एटीएम कार्ड विजया बैंक
5. 02 एटीएम कार्ड यूनियन बैंक
6. 01 एटीएम कार्ड उज्जवल स्माल बैंक फाइनेंश
7. 01 एटीएम कार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
8. 01 एटीएम कार्ड बैंक ऑफ इंडिया
9. 01 एटीएम कार्ड इलाहाबाद बैंक
10. 01 एटीएम कार्ड एचडीएफसी बैंक
11. 01 एटीएम कार्ड इंडस लैंड बैंक
12. 01 एटीएम कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
13. 01 एटीएम कार्ड आईडीबीआई बैंक
14. 01 आधार कार्ड
15. 2500 रुपये नगदी

16. 01 तमंचा 315 बोर

17. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री गगन कुमार गौड थानाध्यक्ष फ्रेंण्डस कालोनी, उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
,का0 योगेश,का0 विनय पटेल

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा